



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1944 (श10)
(सं0 पटना 209) पटना, सोमवार, 06 मार्च, 2023

सं० वर्षा / BMKS-35 / 2021-122
योजना एवं विकास विभाग
(बिहार मौसम सेवा केन्द्र)

संकल्प
03 मार्च, 2023

विषय:— बिहार में कोहरा (Fog) एवं शीत-लहर (Cold Wave) के अरली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने हेतु नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, संयुक्त राज्य अमरीका (National Center for Atmospheric Research, USA) से एकरारनामा करने एवं इस कार्य के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु अनुमानित US \$ 50,000.00 (पचास हजार यू0एस0 डॉलर) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

मौसम संबंधी विभिन्न आँकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण, पूर्वानुमान एवं इससे संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य स्तर पर बिहार मौसम सेवा केन्द्र की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी का गठन किया गया है।

2. बिहार में कोहरा एवं शीतलहर के लिए अरली वार्निंग सिस्टम विकसित करने हेतु नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, संयुक्त राज्य अमरीका (National Center for Atmospheric Research, USA) के सहयोग से एक मॉडल विकसित किया जाना है।

3. उपरोक्त मॉडल विकसित करने एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग हेतु बिहार मौसम सेवा केन्द्र (योजना एवं विकास विभाग, बिहार) एवं एन०सी०ए०आर०, यू०एस०ए० के मध्य एक एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4. इस स्कीम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण बिहार मौसम सेवा केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा। उक्त एकरारनामा पर बिहार मौसम सेवा केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर एवं अन्य आवश्यक कार्य निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना—सह—निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र—सह—सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति, बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी द्वारा किया जायेगा।

5. उक्त पूर्वानुमान को राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभागों यथा—आपदा प्रबंधन, कृषि, परिवहन, गृह आदि विभागों तथा जिला/प्रखण्ड स्तरीय कार्यालयों को भी उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि उनके द्वारा भी अपने कार्य क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सकेगा।

6. कॉल सेन्टर/मोबाईल एप्लीकेशन/एकरारनामा के लिए अलग से राशि की आवश्यकता नहीं है, बिहार मौसम सेवा केन्द्र हेतु पूर्व में स्वीकृत परियोजना राशि से ही उक्त कार्य पर राशि व्यय किया जायेगा।

7. प्रस्तावित स्कीम का व्यय बिहार मौसम सेवा केन्द्र पर होने वाले व्यय से संबंधित राशि की मांग संख्या—35, मुख्यशीर्ष—3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष— 02—सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष—205—राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उपशीर्ष—0102—भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना, विपत्र कोड—35—3454022050102 के तहत बजट उपबंध के अन्तर्गत विकलनीय होगा। इस स्कीम के लिए संगत शीर्ष में उपबंधित राशि का व्यय बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी के पी0एल0 खाता के माध्यम से किया जायेगा।

8. इस प्रस्ताव पर दिनांक 24.02.2023 की मंत्रिपरिषद की बैठक से स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरुनीश चावला,
अपर मुख्य सचिव।

No. वर्षा/BMKS-35/2021—122

Resolution

The 03rd March, 2023

Subject: - Agreement with **National Centre for Atmospheric Research, USA** (NCAR-USA) for developing **Fog and Cold Wave** Early Warning System in Bihar and for payment of an estimated **US \$ 50,000.00 (Fifty Thousand US Dollars)** for obtaining technical support.

1. A state level institution called “Bihar Mausam Sewa Kendra” has been established by Bihar Mausam Sewa Kendra Society for the purpose of weather related data collection, analysis, forecasting and dissemination of information.

2. A Model for generating Fog and Cold wave early warning in Bihar has been proposed to be developed with the technical support from National Centre for Atmospheric Research, USA.

3. An agreement will be signed between Bihar Mausam Sewa Kendra (Planning and Development Department, Bihar) and of National Centre for Atmospheric Research, USA for developing the above model and for necessary technical cooperation.

4. Implementation and monitoring of this scheme will be done through Bihar Mausam Sewa Kendra. On behalf of BMSK, the Director, Directorate of Economics and statistics, Bihar, Patna and Director Bihar Mausam Sewa Kendra-Cum-Member Secretary, Executive Committee, Bihar Mausam Sewa Kendra, Society will be signing the above agreement.

5. The said forecast will also be made available to the Departments of the State Government like Disaster management, Agriculture, Transport, Home etc. and district/block level offices, so that they can also use it in their domain.

6. No separate amount is required for Call Centre/Mobile Application/Agreement. The amount for the said works will be spent from the previously approved project amount of Bihar Mausam Sewa Kendra.

7. Proposed expenditure under Demand number-35, Major Head - 3454 - Census Survey and Statistics, Sub Major Head - 02 - Survey and Statistics, Minor Head - 205 - State Statistical Agency related to the expenditure on Bihar Mausam Sewa Kendra, will be split under the budget provision of subhead 0102 India Statistics Strengthening Project, Bill code-35-3454022050102. The said amount will be spent through PL account of Bihar Mausam Sewa Kendra Society.

8. This proposal has been approved by the State Cabinet on 24.02.2023.

*By the order of Governor of Bihar,
Arunish Chawla,
Additional Chief Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 209-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>